

I/28200/2022

बिहार सरकार
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी
(ग्रामीण विकास विभाग)

दिनांक:-15/07/2022

प्रेषक,

राहुल कुमार, भा०प्र०से०,
आयुक्त मनरेगा।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार।

विषय : जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा से 15 जुलाई से 28 जुलाई की अवधि में वृक्षारोपण अभियान के क्रियान्वयन में तीव्रता प्रदान किए जाने के संबंध में।

प्रसंग : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक **DO No. J-12024/02/2021-RE-IV(376178)** दिनांक **13-07-2022**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त प्रासंगिक पत्र के द्वारा आजादी के 75 वें वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाई जा रही है। इसी क्रम में महात्मा गांधी नरेगा से ग्राम पंचायतों में 2 सप्ताह का वृक्षारोपण अभियान चलाए जाने हेतु निदेश प्राप्त है, जो **15 जुलाई 2022 से प्रारंभ होगा एवं 28 जुलाई 2022 तक चलेगा।**

ज्ञातव्य है कि विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत मनरेगा से राज्य में वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है जिसमें 161.34 लाख पौधों का रोपण किया जाना है। लक्षित पौधों की संख्या के विरुद्ध अब तक कुल 137.42 लाख पौधों के रोपण हेतु स्वीकृति भी दी जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा प्रासंगिक पत्र में वर्णित अवधि (अवधि 15 जुलाई से 28 जुलाई) में जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत मनरेगा से ग्राम पंचायतों में अधिक से अधिक एवं तीव्रता से वृक्षारोपण का कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने हेतु उक्त गतिविधि में लोगों कि भागीदारी महत्वपूर्ण है, जिसमें राज्य के वैसे सभी विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों, प्रसिद्ध हस्तिओं, प्रभावशाली व्यक्तियों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। वृक्षारोपण अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में सूचना तथा अभियान के गतिविधियों से संबंधित फोटोग्राफ, वीडियो, Newspaper Clipping आदि WhatsApp एवं Google Reporting form के द्वारा अमृत महोत्सव योजना अंतर्गत पूर्व में भी साझा किए गए हैं (सुलभ प्रसंग हेतु पत्र कि प्रति संलग्न है)।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि अपने जिले में जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण के कार्यों में तीव्रता लाए जाने एवं 15 जुलाई से 28 जुलाई की अवधि में अभियान को सफल बनाए जाने हेतु अपने स्तर से सभी संबंधितों को निदेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इससे संबंधित प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किया जाए।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Signed by Rahul Kumar
(राहुल कुमार)
Date: 15-07-2022 15:46:01
आयुक्त मनरेगा।
Reason: Approved

प्रतिलिपि: सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आस सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



Amit Kataria
Joint Secretary (RE&IT)
Tel : 23383553
Email: amitkataria@nic.in



ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
Ministry of Rural Development
Deptt. of Rural Development
Government of India
Krishi Bhavan, New Delhi-110001

DO No. J-12024/02/2021-RE-IV (376178)

13 July 2022

Subject: Azadī ka Amrit Mahotsav - reg

Dear Sir/Madam,

It is heartening to see the response of States/UTs for the participation in the **Azadi Ka Amrit Mahotsav** activities conducted under Mahatma Gandhi NREGA. To celebrate the monumental occasion, the Ministry has planned 16 specific activities under Mahatma Gandhi NREGA. So far 14 activities covering 19 weeks and 5 days have been completed successfully. I am delightful while sharing that the States/UTs participated with great enthusiasm and the responses received are encouraging for all of us.

On the occasion, I would also like to draw your attention to upcoming activity under Mahatma Gandhi NREGA is **Mahatma Gandhi NREGA Plantation Drive** in which plants can be planted in Gram Panchayat for the period of Two weeks starting **from 15th July 2022 to 28th July 2022**.

It would be pertinent to mention that in all these events, famous personalities residing in the State/UT, influencers, freedom fighters, their family members, Panchayat Raj institution representatives may also be involved actively to bring visibility to the Programme.

The States/UTs are required to share information related to above mentioned activities with the Ministry along with photographs, videos, newspaper clippings etc., through WhatsApp group and through Google reporting form already shared for the Amrit Mahotsav.

I solicit your active involvement and co-operation.

With regards,

Yours Sincerely,

(Amit Kataria)

Encl: As above.

To: Secretary / Commissioner (Mahatma Gandhi NREGA)
All States/UTs.

Copy to: Additional Chief Secretary/ Pr. Secretary,
Department of Rural Development,
All States/UTs.

Ranjit Asth
JAE
14-07-22